



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1979/माघ 17, 1900
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1979/MAGHA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1979

सा० का० नि० 64(अ).—श्रीपथि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार श्रीपथि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने परामर्श करने के पश्चात्, श्रीपथि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रारूप पर उस तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को ऐसे राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई हो।

इस प्रकार विनिश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप की वाचन किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम श्रीपथि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1978 है।

1180 GI/78

2. श्रीपथि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में, अनुसूची 8 में, वर्तमान मद 21 के पश्चात्, निम्नलिखित मद प्रस्तुत-स्थापित की जाएगी :—

श्रीपथियों का वर्गीकरण

छूट की शर्तें और सीमा

22 जेलगाड़ियों के भोजन-पान और नदीय पोतों में घर-गृहस्थी के काम की दवाइयों का विषय जिनके विषय के लिए "अहित व्यक्ति" द्वारा पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंध जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि वे श्रीपथियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए, विषय अनु-ज्ञप्ति के अंतर्गत आएंगे;

(क) श्रीपथियों के क्रय और विषय के अभिलेख ऐसी श्रीपथियों के विषय के भारसाधक व्यक्ति द्वारा रखे जाएंगे, और वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक के निरीक्षण के लिए सुलभ होंगे;

(ख) वह स्थान, जहां ऐसी श्रीपथियों स्टॉक की जाती हैं, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, जो यदि आवश्यक हो तो, निरीक्षण के लिए नमूने ले सकता है।

[सं० एकस० 11014/1/78-डी०एम०एस० (पी० एफ० ए०)]

टी० बी० एन्टोनी, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1979

G. S. R. 64(E).—The following draft of rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 which the Central Government proposes to make after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published, as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 90 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1978.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, after the existing entry 21, the following entry shall be inserted:—

Class of Drugs	Extent and conditions of exemption
22. Sales from restaurant cars of trains and from coastal ships of household remedies which do not require the supervision of a "qualified person" for their sale.	The provisions of Chapter IV of the Act and the Rules thereunder which require them to be covered by a sale licence, subject to the following conditions : (a) the records of purchase and sale of drugs shall be maintained by the person-in-charge of sale of such drugs, which shall be available for inspection by an Inspector appointed under the Act; (b) the place where such drugs are stocked shall be open to inspection by an Inspector appointed under the Act who can, if necessary, take samples for test.

[No. X 11014/1/78-DMS & (PFA)]
T. V. ANTONY, Jt. Secy.